



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12—अप्रैल 18, 2008 (चैत्र 23, 1930)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12—APRIL 18, 2008 (CHAITRA 23, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. ए-11013/51/98-2008-पीएमए—पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई. के. गुजराल के निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री बाल किरन मग्न (पुनर्नियुक्त पेशनधारी) ने दिनांक 18 मार्च 2008 (अपरह्न) से अपना पदभार छोड़ दिया है।

पी. के. राय, उप सचिव

दिनांक 25 मार्च 2008

सं. ए-22012/1/2008-पीएमए—राष्ट्रपति जी, श्री सुभाष चंद्र लाल दास, आई. ए. एस. (एजीएमयूटी : 92) को प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 25 मार्च, 2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 29.9.2010 तक केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, उप सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 12016/5/2004-एसएसएस—अधिवर्तिता की आयु प्राप्त करने पर अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I सांख्यिकीय अन्वेषक उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से सेवानिवृत्त हो गए :-

क्रम सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1	2	3
1.	जेड. एस. नाथक	30.11.2007
2.	एएपीएस मूर्ति	30.11.2007
3.	ए. सौरी	30.11.2007
4.	एम. आई. राजशेखरन	31.12.2007
5.	रमेश प्रसाद सिंह रमन	31.12.2007
6.	कमला प्रसाद राय	31.12.2007

1	2	3
7.	आर. जे. इंग्ले	31.12.2007
8.	पी. एन. डेनारे	31.12.2007
9.	निरंजन घोष	31.12.2007
10.	एस. विश्वास	31.12.2007
11.	वीरेंद्र कुमार	31.12.2007
12.	ए. सी. त्रिवेदी	31.12.2007
13.	एस. सी. महमूजा	31.12.2007
14.	एच. सी. दास	31.12.2007
15.	बी. एन. कालिता	31.01.2008
16.	सराजीत बोस	31.01.2008
17.	मिहिर कुमार बनर्जी	31.01.2008
18.	यू. एन. झा	31.01.2008
19.	जी. सुब्बा राव	31.01.2008
20.	एस. के. पांडा	31.01.2008
21.	अनिल कुमार विश्वास	29.02.2008
22.	बाणीव्रत सिन्हा	29.02.2008
23.	डी. सी. जोशी	29.02.2008

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-I के एक सांख्यिकीय अन्वेषक को उनके नाम के सामने दी गई तारीख को मृत्यु हो गई :-

1. वाई. सी. सक्सेना 17.1.2008

3. इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-I के एक सांख्यिकीय अन्वेषक ने उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली :-

1. एल. बी. दलाल 1.03.2008

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 मार्च 2008

सं. 12016/5/2004-एसएसएस :- अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड-II सांख्यिकीय अन्वेषक, श्री डी. एम. खुलगे ने 1.3.2008 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. ए-12023/1/2006-प्रशा.1--सक्षम प्राधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एतद्वारा श्री एस. नाहा, सहायक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (आईएस बिंग), कोलकाता को 25.2.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी किए जाने तक उसी कार्यालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (गैर-सीएसएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

भारती दत्त, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा.IV (वि.का.) खंड 3--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.02.2008 व 24.03.2008 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2007-सीएस-II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रीमती ए. के. जैगर, ग्रेड सी आशुलिपिक को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30.06.2008 तक अथवा पद के निश्चित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में रु. 6,500-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उपरोक्त अवधि के लिए उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा.I(जी)--राष्ट्रपति, सी.एस.एस. की ग्रेड-I अधिकारी सुश्री रीना सेठी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग से उनका स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 22 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2008-प्रशा.I(जी)--राष्ट्रपति, सी.एस.एस. की ग्रेड-I अधिकारी श्री के. वी. अनिकृष्णन् को आर्थिक कार्य विभाग से उनका स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 27 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 067, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. 13016/02/2001-प्रशि.I--राष्ट्रपति, श्री पी. एस. सरीन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक (प्रबंधन सेवाएं) के रूप में नियुक्ति को 17.2.2008 से 16.2.2009 तक एक वर्ष की अवधि के लिए या उनके स्थान पर किसी पदाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

मनीषा भटनगर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. 14015/12/2007-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2007 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में विद्यमान 02(दो) रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 31.12.2007 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई केरल राज्य की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य(यों) के नाम(मों) वाली वर्ष 2007 की चयन सूची दिनांक 10.03.2008 को अनुमोदित कर दी है :-

चयन सूची 2007

क्र.सं. अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
1. श्री बी. एन. जितेन्द्रन	09.03.1954
2. श्री पी. आई. शेख पारिथ	30.11.1956

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/12/2007-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (2) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केरल की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य(यों) को वर्ष 2007 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत उनका आबंटन केरल संवर्ग में करते हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम
1. श्री बी.एन. जितेन्द्रन
2. श्री पी. आई. शेख पारिथ

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

सं. सीडीआर-II/560/4/2005--राष्ट्रपति, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के ग्रेड-III (सहायक पासपोर्ट अधिकारी) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ग्रेड-II (उप पासपोर्ट अधिकारी) में 9 फरवरी, 2007 से स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करती है :-

क्रम संख्या	नाम
1	2
1.	श्री मार्शल कुजुर
2.	श्रीमती एस. भारद्वाज
3.	श्रीमती आर. पी. जाधर

1 2

4. श्री एम. वेलुकुट्टी
5. श्री हंस राज
6. श्री यू. एस. लिंगवाल
7. श्री मदन लाल
8. श्रीमती एन. पी. केनी
9. श्री आर. ए. धोने
10. श्री डी. के. घोष
11. श्रीमती कमलेश कौर
12. श्री ए. पांडुरंगन
13. श्री ए. ए. तेजवानी
14. श्री बी. एम. गंगवाने
15. श्री के. एस. डी. थमीय
16. श्री ए. टी. मूर्ति
17. श्री टी. डी. शर्मा

आर. के. पुरी, उप सचिव (पीबी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2007

सं. सीडीआर-II/560/7/2007--राष्ट्रपति, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के संवर्ग के ग्रेड-III (सहायक पासपोर्ट अधिकारी) के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ग्रेड-II (उप पासपोर्ट अधिकारी) में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करती है :-

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तारीख
1.	श्री आर. एन. राय	27.07.2007
2.	श्री के. पी. मधुसूदनन	21.08.2007
3.	श्री बाबू राम आर्या	10.09.2007
4.	श्री डी. एच. कोली	14.09.2007

आर. के. पुरी, उप सचिव (पीबी)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2008

सं. 21 (फा. सं. ए-19013/8/2008-प्रसा.1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री बी. श्रीकुमार, को उनकी पदोन्नति पर दिनांक 7.02.2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक, राजस्व विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर के. स. से. के अवर सचिव (ग्रेड-I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश एम.ए.सं. 2170/2006 ओ.ए.सं. 2793/2005, एम.ए.सं. 2710/2005 के आदेश के अध्वधीन है।

एस. के. त्यागी, निदेशक (मुख्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2008

सं. ए-38014/4/2007-प्रशासन-1 क--राजस्व विभाग में निजी सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा के अधिकारी श्री हंस राज वाघवा दिनांक 29 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से स्वीच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

लाम सिंह चाने, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2008

सं. 22 (फा. सं. ए-38013/3/2008-प्रशा.1)--राजस्व विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार दिनांक 29.02.2008 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 23 (फा. सं. ए-38013/2/2008-प्रशा.1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी की पद में नियुक्त केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री देव कुमार दिनांक 29.02.2008 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 24 (फा. सं. ए-38011/3/2008-प्रशा.1)--राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर क्षेत्र के सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री ए. से. मजूमदार (आई.टी. : 71) दिनांक 29.02.2008 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 मार्च 2008

सं. 25 (फा. सं. ए-38011/5/2008-प्रशा.1)--केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग में सदस्य के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1970) के अधिकारी श्री देवेन्द्र दत्त, अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च, 2008 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वीच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2008

सं. 27 (फा. सं. ए-19011/6/2008-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री बी. श्रीधर, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 73) को दिनांक 01.03.2008 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के. उ. शु. एवं सी. शु. बोर्ड) में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 13019/79/पीएफ-आईईएस--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस-1979) की अधिकारी डॉ. (श्रीमती) रुपा आर. जोशी को 07 मार्च, 2008 के आदेश सं. ए-13019/79/पीएफ-आईईएस के तहत सेवा से बरखास्त करने का दण्ड देते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. 13019/83/पीएफ-आईईएस--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस-1983) के अधिकारी श्री राजीव साहनी को 24 मार्च, 2008 के आदेश सं. ए-13019/83/पीएफ-आईईएस के तहत सेवा से बरखास्त करने का दण्ड देते हैं।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. ए-19014/6/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री दिलीप कुमार मीणा, उप निदेशक, रक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व आभार पर, 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में, दिनांक 10.3.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रण वसूली अधिकरण औरंगाबाद में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 24 मार्च 2008

सं. ए-19014/2/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, डॉ. रजनी त्रिवेदी, उप निदेशक, केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता, को दिनांक 25.02.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 12,750-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, पंजीयक, प्रण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19013/3/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, सुश्री एस.के. राम, उप निदेशक, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, को दिनांक 11.03.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 12,750-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19015/1/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री कुमार पाल शर्मा, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, को दिनांक 29.02.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में, तदर्थ आधार पर, सहायक पंजीयक, ऋण वसूली अधिकरण-II, मुंबई, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19014/7/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री अरुण चक्रवर्ती, उप निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, को दिनांक 12.03.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, कोलकाता, के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. ए-12026/5/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री सुचिन्द्र मिश्र, आई.डी. ए.एस. (1992) को उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में 24 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से 09 अप्रैल, 2011 के अपराह्न तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2008

सं. ए. 12026/5/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री एम. ए. सिद्दिकी को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में चार वर्षों की अवधि के लिए, 27 मार्च, 2008 के अपराह्न से 26 मार्च, 2012 के अपराह्न अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उप-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2008

सं. पी.एफ.बी. (2225)/प्रशा.1--भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सचिव, डा. संजीव मिश्र, आई.ए.एस. (गुज : 1972), अधिवर्षिता को आयु के बाद सेवा-विस्तार की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 31 मार्च 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. ए. 12026/5/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्रीमती सुष्मा नाथ, आई. ए.एस. (एम पी : 1974) को 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 26,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 9/2/2008-प्रशासन--पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 27.03.2008 के का.आ.सं. 19011/11/2007-प्रशा.-I के साथ पठित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.03.2008 के आदेश संख्या 5/20/2007-सीएस.-I (ईस्क) के अनुसरण में राष्ट्रपति, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग की नियमित अनुभाग अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी पाल को विनिवेश विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 27 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. पूर्वाप्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

(i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा ग्रेड-I में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा;

(ii) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

3. इसके अलावा पूर्वोक्त नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में दिनांक 11.10.2007 के आदेश के अध्वधीन भी होगी।

ए. के. निगम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. 9/3/2008-प्रशासन/स्थापना--श्री विवेक महारात्रा, आई.एस (हरियाणा : 74) ने 01 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग) में सचिव, भारत सरकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं।

एस. के. बन्दोपाध्याय, निदेशक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 4 जनवरी 2008

सं. पीएफजी (835)/02-प्रशा. I--इस मंत्रालय के दिनांक 14.11.2007 तथा 20.12.2007 के आदेश सं. ए-32011/7/2006-प्रशा. II के द्वारा भारतीय कंपनी विधि सेवा (आईसीएलएस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 18,400-500-22,400/- रु. वेतनमान पर प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री बी. के. बंसल ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक निदेशक, निरीक्षण एवं जांच का पदभार ग्रहण किया है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2008

सं. पीएफसी (944)/08-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जनवरी, 2008 के आदेश सं. 5/1/2006 सी एस-1 (डेस्क) के अनुसार में तथा गृह मंत्रालय से कार्यमुक्त किए जाने पर श्रीमती रीता खोशा, अवर सचिव, सीएसएस में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 15 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से अवर सचिव का पदभार ग्रहण किया है।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. ए-12018/1/2004-आ.स. (प्रशा. I)--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, श्री राधे श्याम की प्रतिनियुक्ति अवधि को आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में दिनांक 9 मार्च, 2008 से 22 अगस्त, 2008 तक या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो, उप आर्थिक सलाहकार के पद पर रुपए 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में बढ़ाते हैं।

समरेन्द्र साहू, अपर आर्थिक सलाहकार

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 7(5)/2007-आई पी आर I (आईपीएबी)--राष्ट्रपति, श्री जेड. एस. नेगी, उपाध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) को दिनांक 20 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष पद का प्रभार ग्रहण करने से लेकर 65 वर्ष की आयु तक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, चेन्नई का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं।

2. बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री जेड. एस. नेगी को मिलने वाले वेतन और भत्ते तथा उन पर लागू होने वाली सेवा शर्तें "बौद्धिक संपदा बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते, तथा सेवा सम्बन्धी अन्य निर्बंधन और शर्तें) नियमावली, 2003 और संशोधन नियमावली, 2007" के प्रावधानों के अनुरूप होंगी।

एम. एस. धाकड़, निदेशक

सं. 8(2)/2005-आई पी आर I (आईपीएबी)--अध्यक्षता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप श्री जस्टिस एम.एच.एस. अन्सारी, चैयरमैन, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), चेन्नई, दिनांक 19 मार्च, 2008 की अपराह्न की चैयरमैन, आईपीएबी के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. एस. धाकड़, निदेशक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110 049, दिनांक 27 मार्च 2008

सं. ए-19011/02/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री काशी नाथ को 11.03.2008 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (कै.स.स. के ग्रेड I) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.03.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सी.एस.-1 (डेस्क) की शर्तों के अनुसार, वह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- उक्त तदर्थ पदोन्नति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगी।
- उक्त तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय कोई कारण बताए बिना समाप्त की जा सकती है।

एस. के. मोहनती, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. ए-32014/1/2006-स्या.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक श्रेणी 'ग' को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 28.2.2008 (पूर्वाह्न) से 30.6.2008 तक या नियमित आधार पर पद भरे जाने या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो आशुलिपिक श्रेणी 'क और ख' (विलय) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री एन. सम्पत कुमार

2. उपर्युक्त नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.2.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2007-सी.एस.-2 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 7 मार्च 2008

सं. ए-12025/01/05-प्रशा. I (ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2006-सी.एस. II के द्वारा जोनिंग स्कीम के अंतर्गत चयन सूची वर्ष 2004 के लिए केन्द्रीय

सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री मदन मोहन, नियमित ग्रेड 'सी' आशुलिपिक, जो इस समय जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए एण्ड बी' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में 04.03.2008 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 13 मार्च 2008

सं. ए-19014/06/2007-प्रशा.1(ए)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भू जल बोर्ड, उत्तरांचल क्षेत्र, देहरादून के सहायक अलविज्ञानी, डॉ. कौणा गोपीकृष्ण को 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में वैज्ञानिक 'सी' के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 03.03.2008 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कलनौरिया, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 28 मार्च 2008

सं. पुविम./11/7/2008-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 1 फरवरी, 2008 के पत्र सं. 1/5/2007-ई.ओ. (एम.एम.-1) का अनुसरण करते हुए श्री देवेंद्र कुमार निम, आई.पी. एंड टी.ए. एंड एफ.एस. (1993) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप उनको 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में दिनांक 29.2.2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सदस्य संख्या में शामिल किया जाता है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

सं. पुविम./11/8/2008-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 5 फरवरी, 2008 के का. ज्ञा. सं. 1/3/2007-ई.ओ. (एम.एम.-1) का अनुसरण करते हुए श्रीमती वसुधा गुप्ता, आई.आई.एस. (89) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप उनको 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में दिनांक 26.2.2008 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सदस्य संख्या में शामिल किया जाता है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. ए-32012/1/2005-पी-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 फरवरी, 2008 सं. 7/16/2007-सी. एस. I(एस), द्वारा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति के अनुमोदन होने के

परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती सेल्सा केरकेट्ट, सहायक को केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में 24 मार्च, 2008 से 30.6.2008 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

2. यह तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करती है :-

- (i) यह तदर्थ नियुक्ति व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा चयन सूची में नाम सम्मिलित करने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में बरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने का हक नहीं देता।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि बरिष्ठता कोटे अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल सी सी ई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित तम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाय। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं रखता हो तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध होने पर ऐसे नियमित अधिकारी (नियमित अनुभाग अधिकारी) के इच्छुटी ज्वाइन करने की तारीख से कर्मचारी को सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. ए-12025/30/2007-सीएचएस-IV--राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर स. (श्रीमती) संगीता पाहुजा सिंधवानी को 20.11.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में किशोराग्र ग्रेड-II (विकृति विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2008

सं. 19/301/89-फ.प्र.-3 खण्ड-3 (खंड)--कन्दन विकास निदेशालय, जयपुर के निदेशक श्री एस. बी. सिंह को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.01.2008 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

खातिबिन लालील, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. 4-2/2008-विस्तार--राष्ट्रपति, श्री पी. एस. अरबोरीकर, विस्तार अधिकारी, विस्तार निदेशालय को इसी निदेशालय में प्रोन्नति के आधार पर वेतनमान 10,000-325-15,200/- रु. में संयुक्त निदेशक (विस्तार),

जी.सी.एस. समूह 'क' राजपत्रित के पद पर 29 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न से प्रोन्नत करते हैं।

रानी तलारेजा, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2008

सं. ए.12025/8/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में डॉ. बाबू राम, सहायक आयुक्त (पशुपालन) को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर 14.03.2008 अपराह्न से उपायुक्त (पशुपालन) नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2008

सं. 19013/35/2008-स्थापना--राष्ट्रपति जी, श्री अमर सिंह, भारतीय आर्थिक सेवा के एन. एफ. एस. जी. अधिकारी एवं निदेशक, पी. ई. ओ. (मुख्यालय), योजना आयोग को 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय में 12 फरवरी 2008 पूर्वाह्न से निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

देवेन्द्र कुमार छतवाल, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. 22-7/2005-ए एस आई/ए एस--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री ज्ञानविजय शर्मा को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निदेशक (संरक्षण) के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

उक्त नियुक्ति, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली के 2007 के ओ. ए. सं. 2410 एवं 2008 के ओ. ए. सं. 53 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

विक्टर बा, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 28 मार्च 2008

सं. 9-44/2007-एमसी.--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में उनका कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति जी, श्री आर. एन. शास्त्री, भा. प्र. स. (कर्षा. : 78) प्रबंध निदेशक को 31.3.2008 अपराह्न से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यों से सहर्ष कार्यमुक्त करते हैं।

2. श्री शास्त्री की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् कर्नाटक सरकार के सुपुर्द की जाती हैं।

एस. एम. अख्तर, उप सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2008

सं. 42018/11/2004-स्या. (जनजातीय कार्य)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.1.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सीएस-1 (डेस्क) के अनुसरण में और केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय) के दिनांक 28.01.2008 के कार्यालय आदेश सं. 21/2/2007-स्य. IX/495-512 द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर, राष्ट्रपति श्री बी. एस. धंधारी को 29.01.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन-सूची में उन्हें शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। आगे, यह नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के एम.ए. सं. 2170/2005 और ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में आदेश के अधीन होगी।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 18 मार्च 2008

सं. 12034/1/2007-स्या. (जनजातीय कार्य)--राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) के विशेष कार्य अधिकारी श्री नौशाद आलम को 18.03.2008 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में उनके कर्तव्यों से कार्यमुक्त करते हैं।

2. श्री नौशाद आलम की सेवाएं लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 30 मार्च 2008

सं. 5538/एनआईसी/2008-प्रशासन-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा, श्री वेंगु भाषव अदुरी, (कर्मचारी कोड सं. 5538) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, जयसिंगपुर राज्य केन्द्र, रायपुर से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड "एस. बी." के पद से त्यागपत्र दिनांक 11 मार्च, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (प्रशासन-II)

(मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. 2(10)/2007-पीए(टीबी)--राष्ट्रपति जी ने श्री के. एस. सेमसेखर, उप निदेशक, (भाषांतरण) राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी

निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र (इंटीडीसी), बंगलूर में दिनांक 11.02.2008 के पूर्वाह्न से आरम्भतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर संयुक्त निदेशक, नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

सं. 2(10)/2007-पीए(टीबी)--राष्ट्रपति जी ने श्री विजय कुमार, कार्यकारी अधिकारी, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण और विकास केन्द्र (इंटीडीसी), बंगलूर में दिनांक 04.02.2008 के पूर्वाह्न से आरम्भतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति को सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-I नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2008

सं. ई आर बी-1/2004/12/1--श्री हरिबंस पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी (परिवीक्षाधीन), को 4.2.2006 (पूर्वाह्न) से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कन्फर्म किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2008

सं. ए. 32014/1/2004-ई-II(बी)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.02.2008 के का.ज्ञा.सं. 5/11/2007-सीएस.II के अनुसार, राष्ट्रपति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड-सी आशुलिपिकों को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड-ए और बी (विलयित)] के पद पर उनके नाम के सामने लिखी तिथि से दिनांक 30.06.2008 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

1. सुश्री मेधा सिंह 07.03.2008 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती इंदु जसवाल 10.03.2008 (पूर्वाह्न)

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

दिनांक 25 मार्च 2008

सं. ए-12022/1/2007-ई-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.02.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सीएस.I (ड्रेस्क) और दिनांक 22.02.2008 के आदेश सं. 5/20/2007-सीएस.I (ड्रेस्क) के अनुसार,

3-12 GI/2007

राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री विवेक आशीष को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में दिनांक 22.02.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 6 माह की अवधि के लिए पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड-I में नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

3. यह नियुक्ति एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अधधीन है।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2008

सं. 73/2008 फा. सं. 3/1/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री एम. सी. एस. राव, इस मंत्रालय में सी एस एस कांस्टेबल के अनुभाग अधिकारी को वर्तमान में दूरदर्शन, निदेशालय में उप निदेशक, प्रशासन के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, को, सी. सी. एस. (पेंशन नियम)-1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत दिनांक 30.04.2008, अपरहस्त से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की अनुमति देते हैं।

राम फल, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2008

सं. ए-19011/1/2007-सोएलएस-II--राष्ट्रपति जी, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-I मुंबई के पीअसीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री सी. पी. मिश्रा, पीअसीन अधिकारी, केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, कोलकाता को कार्यभार ग्रहण करने से दिनांक 6 अगस्त, 2008 तक या जब तक पद नियमित आधार पर नहीं भरा जाता या अगले आदेशों तक, जो भी जल्दी हो, सौंपते हैं।

देवेन्द्र सिंह, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/03/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री सी. सी. बिजलवान को 26 फरवरी, 2008 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर इस संवर्ग के ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर नियुक्त करती है।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 20th March 2008

No. A.11013/51/98-2008-PMA—Shri Bal Kishan Magoon, a re-employed pensioner and appointed as Private Secretary to Shri I.K. Gujral, former PM, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 18th March 2008.

P. K. ROY, Dy. Secy.

The 25th March 2008

No. A.22012/1/2008-PMA—The President is pleased to appoint Shri Subhas Chandra Lal Das, IAS (AGMUT : 92) as Director in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 25th March 2008 for the balance period of his central deputation tenure upto 29.9.2010 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 19th March 2008

No. 12016/5/2004-SSS—On attaining the age of superannuation, the following Statistical Investigator Grade-I of Subordinate Statistical Service have retired from service on the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Retirement
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Z. S. Naik	30.11.2007
2.	AAPS Murthy	30.11.2007
3.	A. Sourj	30.11.2007
4.	M. I. Rajasekharan	31.12.2007
5.	Ramesh Prasad Singh Raman	31.12.2007
6.	Kamala Prasad Roy	31.12.2007
7.	R. J. Engle	31.12.2007
8.	P. N. Dengre	31.12.2007
9.	Niranjan Ghosh	31.12.2007
10.	S. Biswas	31.12.2007
11.	Virender Kumar	31.12.2007
12.	A. C. Trivedi	31.12.2007
13.	S. C. Mohapatra	31.12.2007
14.	H. C. Das	31.12.2007
15.	B. N. Kalita	31.1.2008

1	2	3
16.	Sarajit Bose	31.1.2008
17.	Mihir Kumar Banerjee	31.1.2008
18.	U. N. Jha	31.1.2008
19.	G. Subba Rao	31.1.2008
20.	S. K. Panda	31.1.2008
21.	Anil Kumar Biswas	29.2.2008
22.	Banibrata Sinha	29.2.2008
23.	D. C. Joshi	29.2.2008

In addition to above, one Statistical Investigator Gr. I of SSS has expired on the date indicated against his name :—

1. Y. C. Saxena 17.1.2008

Besides this, one Statistical Investigator Gr. I of SSS has retired from Government service voluntarily with effect from the dates shown against his name :—

1. L. B. Dalal 1.3.2008

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

The 20th March 2008

No. 12016/5/2004-SSS—Sh. D. M. Khulage, Statistical Investigator Grade-II of Subordinate Statistical Service has Voluntarily retired from Govt. Service w.e.f. 1.3.2008.

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

New Delhi-110 001, the 20th March 2008

No. A-12023/1/2006-Ad.I—Competent Authority, Ministry of Statistics & P.I. hereby appoints Shri S. Naha, Assistant in the Central Statistical Organization (I.S. Wing), Kolkata to officiate as Section Officer (Non-CSS) on regular basis in the same office with effect from 25.2.2008 (FN) until further orders.

BHARATI DATTA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 26th March 2008

No. A-32015/3/2006-Admn.IV(LA) Vol. III—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/11/2007-CS-II dated 07.02.2008 & 24.3.2008, the President is pleased to appoint Smt. A. K. Dhangra, Steno Grade 'C' of CSSS cadre as Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs with effect from the date of taking over charge of the post for a period upto 30.06.2008 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on her to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged)(PS) for the above said period.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th March 2008

No. A. 32013/2/2008-Ad.I(G)—Consequent upon her transfer from Department of Road Transport & Highways, the President is pleased to appoint Ms. Reena Sethi, a Grade I Officer of CSS, as Under Secretary in Department of Personnel and Training in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 22nd February, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A.32013/2/2008-Ad.I(G)—Consequent upon his transfer from Department of Economic Affairs, the President is pleased to appoint Sh. K. V. Unnikrishnan, a Grade I Officer of CSS, as Under Secretary in Department of Personnel and Training in the scale of Pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 27th February, 2008, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi-110 067, the 13th February 2008

No. 13016/02/2001-Trg.I—The President is pleased to continue the appointment of Shri P. S. Sareen, in the Department of Personnel & Training as Deputy Director (Management Services) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, for a further period of one year w.e.f. 17.2.2008 to 16.2.2009 or, till his substitute joins the post, whichever is earlier.

2. This issues in continuation of this Department's notification of even no. dated 23.4.2007.

MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.

The 20th March 2008

No. 14015/12/2007-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2007 on 10.03.2008 containing the name(s) of the following member(s) of the Non-State Civil Service of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meeting held on 31.12.2007 towards filling up 2 (two) existing vacancies in the Kerala Cadre of the Indian Administrative Service, during 2007 :—

SELECT LIST 2007

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri V. N. Jithendran	09.03.1954
2.	Shri P. I. Sheik Pareeth	30.11.1956

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/12/2007-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the Non-State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl.No.	Name of the Officer
1.	Shri V. N. Jithendran
2.	Shri P. I. Sheik Pareeth

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th August 2007

No. CDR-II/560/4/2005—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-III (Assistant Passport Officer) of the cadre of the Central Passport Organisation to Grade-II (Deputy Passport Officer) of the Central Passport Organisation in an officiating capacity with effect from 9th February, 2007 :—

S.No.	Name
1	2
1.	Shri Marshal Kujur
2.	Smt. S. Bharadwaj
3.	Smt. R. P. Jathar
4.	Shri M. Velukutty
5.	Shri Hans Raj
6.	Shri U. S. Lingwal
7.	Shri Madan Lal
8.	Smt. N. P. Keny
9.	Shri R. A. Dhone
10.	Shri D. K. Ghosh

1	2
11.	Smt. Kamlesh Kaur
12.	Shri A. Pandurangan
13.	Shri A. A. Tejwani
14.	Shri B. M. Gangawane
15.	Shri K. S. D. Thameem
16.	Shri A. T. Murthy
17.	Shri T. D. Sharma

R. K. PURI, Dy. Secy. (PV)

New Delhi, the 10th October 2007

No. CDR-II/560/7/2007—The President is pleased to appoint the following officers of Grade-III (Assistant Passport Officer) of the cadre of the Central Passport Organisation to Grade-II (Deputy Passport Officer) of the Central Passport Organisation in an officiating capacity with effect from the date mentioned against each :—

Sl.No.	Name	Date of promotion
1.	Shri R. N. Rai	27.07.2007
2.	Shri K. P. Madhusoodanan	21.08.2007
3.	Shri Babu Ram Arya	10.09.2007
4.	Shri D. H. Koli	14.09.2007

R. K. PURI, Dy. Secy. (PV)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 28th February 2008

No. 21 (F. No. A-19013/8/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri V. Sreekumar a permanent Section Officer of the CSS, on his promotion, as Under Secretary (Grade I) of CSS, purely on ad-hoc basis in the Department of Revenue w.e.f. 07.02.2008 (FN) and until further orders.

2. The appointment shall be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

S. K. TYAGI, Dir. (Hqrs.)

New Delhi, the 3rd March 2008

No. (F. No. A.38014/4/2007-AD.IA)—Shri Hans Raj Wadhwa, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, posted as Private Secretary in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 29th February, 2008 (F.N.).

LABH SINGH CHANE, Dir.

New Delhi, the 4th March 2008

No. 22 (F. No. A.38013/3/2008-Ad.I)—Shri Ravinder Kumar, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Under Secretary (ad-hoc) in the Department of Revenue retired from Government Service on 29th February 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 23 (F. No. A.38013/2/2008-Ad.I)—Shri Daya Krishan Dalakoti, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 29th February 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 24 (F. No. A.38011/3/2008-Ad.I)—Shri A. J. Majumder, an officer of the Indian Revenue Service (IT : 71), posted as Member, CBDT in the Department of Revenue retired from Government Service on 29th February 2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 7th March 2008

No. 25 (F. No. A.38011/5/2008-Ad.I)—Shri Devendra Dutt, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise : 1970), posted as Member, Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue retired voluntarily from Government Service on 01 March 2008 (FN) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972 to join his new assignment.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 10th March 2008

No. 27 (F. No. A.19011/6/2008-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri V. Sridhar, IRS (C&CE : 73), as Member of the Central Board of Excise & Customs (CBEC) in the Ministry of Finance, Department of Revenue with effect from 01.03.2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 31st March 2008

No. 13019/79/PF-IES—The President is pleased to impose a penalty of dismissal from service on Dr. (Mrs.) Roopa R. Joshi, an officer of Indian Economic Service (IES) (1979 Batch), vide Order No. A.13019/79/PF-IES dated 07th March, 2008.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. 13019/83/PF-IES—The President is pleased to impose a penalty of dismissal from service on Shri Rajeev Sawhney, an officer of Indian Economic Service (IES-1983), vide Order No. A.13019/83/PF-IES dated 24th March, 2008.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 20th March 2008

No. A-19014/6/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Dileep Kumar Meena, Dy. Director, Ministry of Defence to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Aurangabad on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 10.03.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 24th March 2008

No. A-19014/2/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Dr. Rajni Trivedi, Dy. Director, Central Forensic Science Laboratory, Kolkata to the post of Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 25.02.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19013/3/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Ms. S. K. Ram, Deputy Secretary, Ministry of Minority Affairs to the post of Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 11.03.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-19015/1/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Kumar Pal Sharma, Research Officer, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs to the post of Asstt. Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 29.02.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 25th March 2008

No. A-19014/7/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Arup Chakrabarty, Dy. Director,

4-12 GI/2007

Directorate General of Supplies & Disposal, Department of Commerce to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-III, Kolkata on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 12.03.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 26th March 2008

No. A. 12026/5/2007-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Suchindra Mishra, IDAS (1992) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- under the Central Staffing Scheme with effect from the forenoon of the 24th March, 2008 for the balance period of his central deputation tenure upto the afternoon of the 9th April, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 28th March 2008

No. A.12026/5/2007-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri M. A. Siddique, IAS (TN : 1995) as Deputy Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- under the Central Staffing Scheme for a period of 4 years with effect from the forenoon of the 27th March, 2008 upto the afternoon of the 26th March, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 31st March 2008

No. PFG(2225)/Ad.I—Dr. Sanjiv Misra, IAS (GJ : 1972), Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, stands retired from Government service with effect from the afternoon of the 31st March, 2008, on completion of extension of service beyond the age of superannuation.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 1st April 2008

No. A.12026/5/2005-Ad.I—The President is pleased to appoint Smt. Sushama Nath, IAS (MP : 1974), as Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the scale of pay of Rs. 26,000/- (fixed) with effect from the afternoon of the 31st March, 2008.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110 003, the 31st March 2008

No. 9/2/2008-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 18.3.2008 read with Office Order No. 19011/11/2007-Admn.I dated 27.3.2008 of the Department of Pension & Pensioners' Welfare, the President is pleased to appoint Smt. Lakshmi Pal, a regular Section Officer of Department of Pension & Pensioners' Welfare as Under Secretary (ad-hoc) in the Department of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 27th March, 2008.

2. The aforesaid appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I;
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;

3. The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.1.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

A. K. NIGAM, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 1st April 2008

No. 9/3/2008-Admn./Estt.—Shri Vivek Mehrotra, IAS (HY : 74), has assumed charge of the post of Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Disinvestment) with effect from the forenoon of 1st April, 2008.

S. K. BANDYOPADHYAY, Dir.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 4th January 2008

No. PFG(835)/02-Ad-I—Consequent on his promotion to the Senior Administrative Grade of the Indian Company Law Service (ICLS) in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- vide this Ministry's Office Order No. A-32011/7/2006-Ad.II dated 14.11.2007 and 20.12.2007, Shri B. K. Bansal has assumed the charge of the post of Director of Inspection & Investigation at the Headquarters of the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 20th December, 2007 until further orders.

R. C. TULLY, Under Secy.

The 5th March 2008

No. PFG(944)/08-Ad.I—In pursuance to Department of Personnel and Training's Order No. 5/1/2006-CS.I (Desk)

dated 31st January, 2008 and consequent on her being relieved from the Ministry of Home Affairs, Smt. Rita Dogra, Under Secretary of CSS has assumed the charge of the post of Under Secretary in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 15th February, 2008.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 18th March 2008

No. A-12018/1/2004-Ec-Ad./Admn.I—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Radhey Shyam, Deputy Economic Adviser, a Junior Administrative Grade Officer of Indian Economic Services in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- for the period from 9th March, 2008 to 22nd August, 2008 or until further orders, whichever event happens earlier.

SAMARENDRA SAHU, Addl. Economic Adviser

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 25th March 2008

No. 7(5)/2007-IPR.I(IPAB)—The President is pleased to appoint Shri Z. S. Negi, Vice-Chairman, Intellectual Property Appellate Board (IPAB) as Chairman of Intellectual Property Appellate Board, Chennai with effect from forenoon of March 20, 2008 for a period with effect from the date of assumption of charge of the post of Chairman until he attains the age of 65 years.

2. The salaries and allowances payable to Shri Z. S. Negi as Chairman in the Intellectual Property Appellate Board and the conditions of service by which he will be governed, shall be in accordance with the provisions of the "Intellectual Property Board" (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 2003 and Amendment Rules, 2007.

M. S. DHAKAD, Dir.

No. 8(2)/2005-IPR.I (IPAB)—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Justice M. H. S. Ansari, Chairman, Intellectual Property Appellate Board (IPAB), Chennai retired from the post of Chairman, IPAB in the afternoon of March 19, 2008.

M. S. DHAKAD, Dir.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110 049, the 17th March 2008

No. A-19011/02/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Kashi Nath, as Under Secretary (Grade I of

CSSS) on ad-hoc basis in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 11.03.2008 (F/N).

In terms of the Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-C.S. I (Desk) dated 10.03.2008, the appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. K. MOHANTY, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 19th March, 2008

No. A-32014/1/2006-E-I—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) in the Department of Food & Public Distribution as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) on ad-hoc basis w.e.f. 28.2.2008 (FN) initially for the period upto 30.06.2008 or till the post is filled on a regular basis or until further orders whichever is earliest, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-.

S. No. Name

1. Shri N. Sampath Kumar

2. The above appointment is subject to the conditions laid down in the DOP&T's O.M. No. 5/11/2007-CS-II, dated 7.2.2006.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 7th March 2008

No. A-12025/01/05-Admn.(A)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS under zoning scheme for the Select List year 2004 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18/2006-CS.II dated 16.11.2007, the President is pleased to appoint Shri Madan Mohan, a regular Grade 'C' Stenographer, who has been officiating as Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of Ministry of Water Resources, as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (designated as PS) in the CSSS cadre of Ministry of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 with effect from 04.03.2008 (FN) and until further orders.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 016, the 13th March 2008

No. A.19014/06/07-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint Dr. Konga Gopikrishna, Assistant Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Uttaranchal Region, Dehradun as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the Department of Science & Technology with effect from the forenoon of 03.03.2008.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110 003, the 28th March 2008

No. MoES/11/7/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 1/5/2007-EO(MM-I) dated 1st February, 2008 and consequent upon his appointment as Director on Central Deputation, Shri Devendra Kumar Nirm, IP&TA&FS(93) has been taken on the strength of the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 29.2.2008 (F/N) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

No. MoES/11/8/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 1/3/2007-EO(MM-I) dated 5th February, 2008 and consequent upon her appointment as Director on Central Deputation, Ms. Vasudha Gupta, IIS (89) has been taken on the strength of the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 26.2.2008 (A/N) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110 003, the 26th March 2008

No. A-32012/1/2005-P.II(.)—The President is pleased to appoint Smt. Selsa Kerketta, Assistant of CSS cadre of the Ministry of Environment and Forests as Section Officer of 24th March, 2008 for a period upto 30.06.2008 or till the regular Section Officer is made available, whichever is earlier, consequent on being approved for appointment to the Section Officer grade vide DoPT's O.M. No. 7/16/2007-CS.I(S) dated 27th February, 2008.

2. The ad-hoc promotion/appointment is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the SL of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS;
- (ii) Ad-hoc appointment would continue till regular candidate in Section Officer Grade is available either through Seniority Quota or Limited Departmental

Competitive Exam. (LDCE). In the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, she will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officer from the date he (regular Section Officer) joins duty in this cadre allotted by the DOPT.

PREMA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th March, 2008

No. A-12025/30/2007-CHS.IV—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sangeeta Pahuja Sindhwani to the post of Specialist Grade II (Pathology) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation as Specialist Grade II (Pathology) w.e.f. the forenoon of the 20th November 2007 until further orders.

V. P. RANÁ, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 7th February 2008

No. 19/301/89-CA.III. Vol.-III(Pt.)—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri S. V. Singh, Director, Directorate of Millets Development, Jaipur, Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government Service with effect from 31.1.2008 (A.N.).

KATCHIN LANGE, Under Secy.

New Delhi, the 19th March 2008

No. 4-2/2008-Extn.—The President is pleased to appoint Shri P. S. Armonkar, Extension Officer, Directorate of Extension as Joint Director (Extension), G.C.S., Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the same Directorate on promotion basis w.e.f. the forenoon of 29th February, 2008.

RANI TALREJA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING AND FISHERIES)

New Delhi, the 24th March 2008

No. A-12025/8/2007-Admn.I—The President is pleased to appoint Dr. Babu Ram, Assistant Commissioner (AH) in the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries as Deputy Commissioner (AH) in the scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on promotion basis w.e.f. the afternoon of 14.03.2008.

P. L. MEENA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION)

New Delhi, the 19th February 2008

No. A-19013/35/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Amar Singh, NFSG Officer of IES and Director, PEO (Hqrs), Planning Commission as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/-, the Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture with effect from the forenoon of 12th February, 2008.

D. K. CHHATWAL, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 1st April 2008

No. 22-7/2005-ASI/AS—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Janhvi Sharma to the post of Director (Conservation) in the Archaeological Survey of India, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on temporary basis with effect from the date of his assumption on the charge of the said post.

The appointment shall be subject to the final outcome of O.A. No. 2410 of 2007 & O.A. No. 53 of 2008 in Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi.

VICTOR BAA, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 28th March, 2008

No. 9-44/2007-MC—On completion of his tenure of Central Deputation, the President is pleased to relieve Shri R. N. Shastri, IAS (KN : 78) Managing Director of his duties in the National Minorities Development & Finance Corporation w.e.f. the afternoon of 31.03.2008.

2. The services of Shri Shastri will stand placed at the disposal of his parent cadre, i.e. the Government of Karnataka.

S. M. AKHTER, Dy. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th March 2008

No. 42018/11/2004-Estt (TA)—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 16.01.2008 and on being relieved by Central Water Commission (Ministry of Water Resources) vide their Office Order No. 21/2/2007-Estt.IX/495-512 dated 28.01.2008, the President is pleased to appoint Sh. B. S. Bhandari, to the post of Under Secretary in this Ministry on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 29.01.2008 until further orders.

2. This ad-hoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the Grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority

in the Grade I. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor. This appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 18th March 2008

No. 12034/1/2007-Estr.(TA)—The President is pleased to relieve Sh. Naushad Alam, Officer on Special Duty (OSD) to Minister for Tribal Affairs (Sh. P. R. Kyndiah) from his duties in this Ministry with effect from the afternoon of 18.03.2008.

2. The services of Sh. Naushad Alam are placed at the disposal of Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 20th March 2008

No. 5538/NIC/2008-Adm-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Venu Madhav Aduri (Emp. Code No. 5538), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Chhattisgarh State Centre, Raipur, with effect from the afternoon of 11th March, 2008 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Dir. (Adm-II)

New Delhi-110 003, the 20th March 2008

No. 2(10)/2007-PA(TB)—The President is pleased to appoint Shri K. S. Somashekhar, Deputy Director (Interpretation), Rajya Sabha Secretariat, New Delhi as Joint Director in Electronics Test & Development Centre (ETDC), Bangalore under STQC Directorate, Department of Information Technology in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis initially for a period of one year w.e.f. 11.02.2008 (F.N.) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Dir.

No. 2(10)/2007-PA(TB)—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar, Executive Officer, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi as Administrative Officer Grade-I in Electronics Test & Development Centre (ETDC), Bangalore under STQC Directorate, Department of Information Technology in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on

deputation basis initially for a period of one year w.e.f. 04.02.2008 (F.N.) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Dir.

MINISTRY OF RAILWAY

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th March 2008

No. ERB-I/2004/12/1—Shri Hari Bansh Pandey, Section Officer (Probationer), is confirmed in the Section Officer's Grade of Railway Board Secretariat (RBSS) w.e.f. 4.2.2006 (FN).

MATHEW JOHN, Secy. (Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 13th March 2008

No. A.32014/2/2004-E.II(B)—In pursuance of Deptt. of Personnel & Training's OM. No. 5/11/2007-CS.II dated 7.2.2008, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Labour & Employment and Ministry of Finance as Private Secretaries [Steno Grade 'A' & 'B' (merged)] on ad-hoc basis in the basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways with effect from the dates mentioned against each for the period upto 30.6.2008 or until further orders whichever is earlier.

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ms. Megha Singh | 07.03.2008 (FN) |
| 2. Smt. Indu Jaswal | 10.03.2007 (FN) |

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 14th March 2008

No. A-12022/1/2007-E-I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 6.2.2008 and Order No. 5/20/2007-CS.I (Desk) dated 22.2.2008, the President is pleased to appoint Shri Vivek Ashish, a regular Section Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) on purely ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200, for a period of 6 months w.e.f. 22.2.2008 (F.N.) till further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons therefor.

3. The aforesaid appointment is subject to the Order dated 11.1.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th March 2008

No. 73/2008 (F. No. 3/1/2007-Admn.II)—The President is pleased to permit Shri M. C. S. Rao, Section Officer of CSS cadre of this Ministry, presently working on deputation basis as Deputy Director of Administration in Directorate General Doordarshan, to voluntarily retire from Government Service under Rule 48-A of CCS (Pension Rule)-1972, with effect from the afternoon of 30.4.2008.

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 19th March 2008

No. A-19011/1/2007-CLS-II—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer

of the CGIT-cum-Labour Court-I, Mumbai to Shri C. P. Mishra, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Kolkata for a period upto 6th August, 2008 with effect from the date of assumption of charge of the post or till the post is filled on regular basis or until further orders whichever is the earliest.

DEVENDER SINGH, Dir.

New Delhi, the 2nd April 2008

No. A-19011/03/2008-Adm.I—The President is pleased to appoint Sh. D. C. Bijalwan, a regular Section Officer of CSS to Grade-I (Under Secretary) of the Cadre on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 26th February, 2008 until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.